

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 13.10.2020

**थाना जैतीपुर पुलिस को पुलिस मुठभेड के दौरान मिली बडी सफलता,
टॉप -10 बदमाश हिरासत उर्फ हिरा को किया गिरफ्तार, अवैध असलहा व मादक पदार्थ बरामद ।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एव क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन मे क्रियाशील एव चिन्हित किये गये टॉप-10 अपराधियों की गिरफ्तारी एव अपराध की रोकथाम हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 12.10.2020 की रात्रि गश्त व चैकिंग के दौरान थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड मे टॉप -10 शातिर अपराधी हिरासत उर्फ हिरा (पंखिया) बनखण्डी पुलिया के पास मरुआझाले जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोका कारतूस 315 बोर व 03 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ । । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त हिरासत उर्फ हिरा शातिर किस्म का अपराधी है जो पंखिया जाति से ताल्लुक रखता है तथा चोरी व लूट की घटना कारित कर अवैध धन अर्जित करता है । अभियुक्त अपने पास अवैध असलाह रखता है तथा निरन्तर अपराध कारित कर कानून व्यवस्था को चुनौती देता है जिससे आम जनता मे भय रहता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

**1. हिरासत उर्फ हिरा पुत्र अजमत निवासी ग्राम खेडा बझेडा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-**

1. मु0अ0स0 296/2020 धारा 307 भादवि थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 297/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 298/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोका कारतूस 315 बोर
2. 03 किलो डोडा पोस्त

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 1439/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0पुर
2. मु0अ0सं0 677/15 धारा 457/380/411 भादवि थाना कटरा जनपद शाह0पुर
3. मु0अ0सं0 1037/15 धारा 398/401 भादवि थाना कटरा जनपद शाह0पुर
4. मु0अ0स0 1038/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0पुर
5. मु0अ0स0 462/2019 धारा 457,380 भादवि थाना पुवांया जनपद शाहजहाँपुर
6. मु0अ0सं0 200/19 धारा 307/411 भादवि थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
7. मु0अ0सं0 235/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
3. उ0नि0 श्री रूखसार खाँ थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2305 प्रशान्त महालवार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
5. का0 1814 अवधेश पाल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2308 कप्तान कुमार थाना जैतीपुर शाहजहाँपुर